

## उत्तराखण्ड के वीर नारियाँ और वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकी रोडवेज बसों में कर सकेंगे मुफ्त में सफर

### चर्चा में क्यों?

11 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखण्ड के सैनिकी कल्याण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश की 1130 वीर नारियाँ और वीरता पुरस्कार पाने वाले 1727 सैनिकी एवं पूर्व सैनिकी उत्तराखण्ड परिवहन नगिम की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे।

### प्रमुख बटि

- सैनिकी कल्याण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि वीरता पुरस्कार पाने वाले भारतीय सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं के परिवहन नगिम की बसों में मुफ्त सफर करने से इस पर जो खर्च आएगा, नियमानुसार उसका भुगतान एवं प्रतपूर्ति सैनिकी कल्याण वभाग की ओर से परिवहन नगिम को किया जाएगा।
- प्रदेश के नदिशक सैनिकी कल्याण एवं पुनर्वास वभाग को दिये आदेश में कहा गया है कि सैनिकी कल्याण वभाग के आय-व्यय में नई मांग के माध्यम से बजट व्यवस्था कराने के लिये समय से प्रस्ताव तैयार कर इसे शासन को उपलब्ध कराया जाए।
- गौरतलब है कि प्रदेश में सबसे अधिक 203 वीर नारियाँ (युद्ध वधिवा) पथौरागढ़ ज़िले में हैं। इसमें 185 वीर नारियाँ देश के लिये शहीद हुए सैनिकों, 17 जेसीओ और एक शहीद सैन्य अधिकारी की पत्नी हैं।
- इसके अलावा अल्मोड़ा में 82, बागेश्वर में 97, चंपावत में 32, चमोली में 115, देहरादून में 143, हरदिवार में 13, लैसडाउन में 150, नैनीताल में 69, पौड़ी में 70, रुद्रप्रयाग में 43, टहिरी में 63, ऊधमसहि नगर में 40, उत्तरकाशी में 10 वीर नारियाँ हैं।
- प्रदेश में देश की सुरक्षा के लिये अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर जवानों की कमी नहीं है। राज्य में 1727 सैनिकों और पूर्व सैनिकों को महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल आदि विभिन्न वीरता पुरस्कार मिले हैं।